

Roll No.

Y – 294 / Y – 295 / Y – 296

B.Sc. (Second Year) EXAMINATION, March/April-2021

CHEMISTRY

Paper – I, II, III

PHYSICAL CHEMISTRY/INORGANIC CHEMISTRY/ORGANIC CHEMISTRY

Time : Three Hours

Maximum Marks : 27 + 27 + 26 = 80 (For Regular Students)

Minimum Pass Marks : 33%

नोट- सभी प्रश्न हल कीजिये।

Attempt all questions.

खण्ड (अ)

(Section A)

- | | |
|---|---|
| 1. क्लॉसियस असमता पर टिप्पणी लिखिए। | 9 |
| Write a note on Clausius inequality. | |
| 2. गिब्ब प्रावस्था नियम की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। | 9 |
| Explain Gibb's Phase Rule with suitable examples. | |
| 3. अर्हेनियस के विद्युत अपघटन को समझाइए एवं इसकी सीमायें भी बताइए। | 9 |
| Give the Arrhenius theory of electrolyte dissociation and give its limitations. | |

खण्ड (ब)

(Section B)

- | | |
|--|---|
| 4. द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से निम्नलिखित गुणों के आधार पर तुलना कीजिए : | 9 |
| (i) आयनिक त्रिज्या | |
| (ii) ऑक्सीकरण अवस्था। | |

On the basis of the following properties compare the elements of second and third transition series with the elements of first transition series elements :

- | | |
|--|----|
| (i) Ionic Radii | |
| (ii) Oxidation state. | |
| 5. (a) संयोजकता बन्ध सिद्धान्त (VBT) के मुख्य अभिग्रहीत (बिन्दुओं) को लिखिए। | 4½ |
| Write main postulates (points) of Valence Bond Theory (VBT). | |
| (b) तत्वों के निष्कर्षण में लागू होने वाले सिद्धान्तों पर निबन्ध लिखिए। | 4½ |
| Write an essay on principles involved in the extraction of the elements. | |
| 6. (a) ब्रोन्स्टेड-लौरी की अम्ल-क्षार अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। | 4½ |
| Describe Bronsted-Lowry acid-base concept in detail. | |
| (b) विलायकों का वर्गीकरण दीजिए। | 4½ |
| Give classification of solvents. | |

खण्ड (स)
(Section C)

7. पराबैंगनी स्पेक्ट्रमिकी क्या है ? इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। 8
What do you understand by ultraviolet spectroscopy ? Explain it in detail and write down its applications.
8. ऐल्कोहॉलों के निर्जलीकरण की विभिन्न क्रियाविधियों का विवरण दीजिए। 9
Write the various mechanism of dehydration of alcohols.
9. ऐरोमैटिक ऐल्डहाइड प्राप्त करने की सामान्य विधियाँ बताइए। 9
Give the general methods of preparation of aromatic aldehydes.